

## एकक

# 1

## ठोस अवस्था

### उद्देश्य

इस एकक के अध्ययन के पश्चात् आप –

- ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षणों का वर्णन कर सकेंगे;
- अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद कर सकेंगे;
- क्रिस्टलीय ठोसों को बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे;
- क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को परिभाषित कर सकेंगे;
- कणों के निविड़ संकुलन की व्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की रिक्तियाँ और निविड़ संकुलित संरचनाओं का वर्णन कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की घनीय एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता का परिकलन कर सकेंगे;
- पदार्थ के घनत्व और उसकी एकक कोष्ठिका के गुणों में सहसंबंध स्थापित कर सकेंगे;
- ठोसों में अपूर्णताओं और उनके गुणों पर अपूर्णताओं के प्रभावों का वर्णन कर सकेंगे;
- ठोसों के विद्युतीय व चुंबकीय गुणों और उनकी संरचना में सहसंबंध स्थापित कर सकेंगे।

“ठोस पदार्थों जैसे कि उच्च तापीय अतिचालक, जैव सुसंगत प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स आदि की विपुल बहुतायत विज्ञान के भविष्य के विकास में चहुँमुखी भूमिका के निर्वहन के लिए नियत है।”

हम अधिकतर ठोसों के संपर्क में आते हैं और हम उन्हें प्रायः द्रवों और गैसों से अधिक उपयोग में लेते हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हमें व्यापक रूप से भिन्न गुणों वाले ठोसों की आवश्यकता होती है। यह गुण अवययी कणों की प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करते हैं। अतः ठोसों की संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण है। संरचना एवं गुणों के मध्य सहसंबंध वांछनीय गुणों वाले नये ठोस पदार्थों; जैसे उच्च तापीय अतिचालक, चुंबकीय पदार्थ, पैकेज के लिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक, शल्यक रोपण में प्रयुक्त जैवसुनम्य (Biocompliant) ठोस आदि की खोज में सहायक हैं।

हम अपने पूर्व अध्ययन से जानते हैं कि द्रवों और गैसों को उनकी प्रवाह क्षमता के कारण तरल कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में तरलता अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण होती है। इसके विपरीत, ठोसों के अवययी कणों की स्थितियाँ नियत होती हैं और वे केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। इससे ठोसों की कठोरता स्पष्ट होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं।


इस एकक में हम कणों की विभिन्न सम्भव व्यवस्थाओं से प्राप्त अनेक प्रकार की संरचनाओं का विवेचन करेंगे। ठोसों के अवयवी कणों की अन्योन्यक्रिया की प्रकृति और विभिन्न गुणों के मध्य सहसंबंधों की खोज भी करेंगे। संरचनात्मक अपूर्णताओं अथवा अपद्रव्यों की अल्प मात्रा में उपस्थिति से ये गुण किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं, की भी व्याख्या करेंगे।

## 1.1 ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण

कक्षा XI में आप सीख चुके हैं कि पदार्थ तीन अवस्थाओं— ठोस, द्रव और गैस में पाये जाते हैं। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में, किसी पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था अधिक स्थायी होगी, वो विरोधी कारकों के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करती है। अंतराआण्विक बलों की प्रवृत्ति अणुओं (अथवा परमाणुओं अथवा आयनों) को समीप रखने की होती है, जबकि उष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन्हें तीव्रगमी बनाकर पृथक रखने की होती है। पर्याप्त निम्न तापमान पर उष्मीय ऊर्जा निम्न होती है और अंतराआण्विक बल उन्हें इतना समीप कर देते हैं कि वे एक-दूसरे के साथ अनुलग्नित हो जाते हैं और निश्चित स्थितियाँ अध्यासित कर लेते हैं। यह अब भी अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं और पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। ठोस अवस्था के अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं—

- (i) वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं।
- (ii) अंतराआण्विक दूरियाँ लघु होती हैं।
- (iii) अंतराआण्विक बल प्रबल होते हैं।
- (iv) उनके अवयवी कणों (परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों) की स्थितियाँ निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं।
- (v) वे असंपीड़िय और कठोर होते हैं।


## 1.2 अक्रिस्टलीय त्रुवं क्रिस्टलीय ठोस



चित्र 1.1— (क) क्वार्ट्ज और  
(ख) क्वार्ट्ज काँच की  
द्विविमीय संरचना

ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है, उनमें प्रत्येक का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। क्रिस्टल में अवयवी कणों (परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों) का क्रम सुव्यवस्थित होता है। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है अर्थात् कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अक्रिस्टलीय ठोस (ग्रीक अमोरफोस = आकृति नहीं होना) असमाकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों (परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों) की व्यवस्था केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत्त पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। ऐसे भाग बिखरे होते हैं और इनके बीच व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं। क्वार्ट्ज (क्रिस्टलीय) और क्वार्ट्ज काँच (अक्रिस्टलीय) की संरचनाएं क्रमशः चित्र 1.1 (क) और (ख) में दर्शायी गई हैं। यद्यपि दोनों संरचनाएं लगभग समरूप हैं, फिर भी अक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज काँच में दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के सदृश होती है। काँच, रबर और प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर के कारण दोनों प्रकार के ठोसों के गुण भिन्न होते हैं।

क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं और गलाकर सौंचे में ढाले जा सकते हैं और इनसे विभिन्न आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। गर्म करने पर किसी एक तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन जाते हैं। क्रिस्टलीकरण के कारण, प्राचीन सभ्यता की काँच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया गया है। द्रवों के सदृश, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत मंद होता है। अतः कभी-कभी इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे निरअपवाद रूप से



**चित्र 1.2 – क्रिस्टलों में विषम दैशिकता भिन्न-भिन्न दिशाओं में कणों की भिन्न-भिन्न व्यवस्था से प्राप्त होती है।**

शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित् मोटे पाए जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि काँच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधस्तल भाग को किंचित् मोटा कर देता है।

क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं अर्थात् उनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न-भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न-भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। यह अलग-अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। यह चित्र 1.2 से स्पष्ट होता है। चूँकि भिन्न-भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग है, अतः एक ही भौतिक गुण का मान प्रत्येक दिशा में भिन्न पाया जाता है।

दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है। इसका कारण यह है कि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है। अतः किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होगा। यह भिन्नताएं संक्षेप में सारणी 1.1 में दी गई हैं।

अक्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ हैं। काँच, रबर और प्लास्टिक के हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। अक्रिस्टलीय सिलिकन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश-वोल्टीय (photovoltaic) पदार्थ है।

### सारणी 1.1 – क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद

गुण	क्रिस्टलीय ठोस	अक्रिस्टलीय ठोस
आकार	निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार	असमानुकृति आकार
गलनांक	निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं।	ताप के एक परास में धीरे-धीरे नरम पड़ते हैं
विदलन गुण	तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं।	तेज धार वाले औजार से काटने पर, यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं।
गलन ऊष्मा	इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलक्षणिक होती है।	इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती।
दैशिकता	विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं।	समदैशिक प्रकृति के होते हैं।
प्रकृति	वास्तविक ठोस	आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव
अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम	दीर्घ परासी व्यवस्था	केवल लघु परासी व्यवस्था

### पाठ्यनिहित प्रश्न

- 1.1 ठोस कठोर क्यों होते हैं?
- 1.2 ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है?
- 1.3 निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए।  
पॉलियूरिथेन, नैफ्थैलीन, बेन्जोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटैशियम नाइट्रोट, सेलोफेन, पॉलिवाइनिल क्लोराइड, रेशाकाँच, ताँबा।
- 1.4 काँच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है?
- 1.5 एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा?

### 1.3 क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण

खंड 1.2 में हमने अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में जाना और यह भी जाना कि उनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। तथापि, अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए सभी धात्विक तत्व; जैसे— लोहा, ताँबा और चाँदी; अधात्विक तत्व; जैसे— सल्फर, फॉर्सफोरस और आयोडीन एवं यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिन्हें सल्फाइड और नैफ्टैलीन क्रिस्टलीय ठोस हैं।

क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतराआणिक बलों की प्रकृति के आधार पर चार संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं, आणिक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। आइए, अब हम इन संवर्गों के बारे में जानें।

#### 1.3.1 आणिक ठोस

आणिक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया है—

##### (i) अध्रुवी आणिक ठोस

इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं; उदाहरणार्थ, निम्न ताप पर आँगन और हीलियम अथवा अध्रुवी सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं, उदाहरणार्थ, निम्न ताप पर  $H_2$ ,  $Cl_2$  और  $I_2$  द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंडन बलों द्वारा बँधे रहते हैं जिनके बारे में आप कक्षा XI में सीख चुके हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं।

##### (ii) ध्रुवीय-आणिक ठोस

$HCl$ ,  $SO_2$  आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्यक्रियाओं से एक दूसरे के साथ बँधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवी आणिक ठोसों से अधिक होते हैं फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव हैं। ठोस  $SO_2$  और ठोस  $NH_3$  ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं।

##### (iii) हाइड्रोजन आबंधित आणिक ठोस

ऐसे ठोसों के अणुओं में  $H$ , और  $F, O$  अथवा  $N$  परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय-सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं, जैसे  $H_2O$  (बर्फ), को बंधित करते हैं। यह विद्युत के अचालक हैं। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं।

#### 1.3.2 आयनिक ठोस

आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलॉमी (स्थिर वैद्युत) बलों से बँधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चूँकि इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युतरोधी होते हैं। तथापि गलित अवस्था में अथवा जल में घोलने पर, आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करते हैं।


#### 1.3.3 धात्विक ठोस

धातुएं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं।


प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन, धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊपरीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर, ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार जब धातु के एक भाग में ऊपरा संभरित की जाती है तो ऊपरीय ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाती है। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ स्थितियों में उनकी चमक और रंग हैं। यह भी उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। धातुएं अत्यधिक आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं।

#### 1.3.4 सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस

अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेकरूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं; इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यन्त उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते, अतः ये विद्युतरोधी होते हैं। हीरा (चित्र 1.3) और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। ग्रैफाइट मुलायम और विद्युत चालक है। उसके अपवादात्मक गुण उसकी विशिष्ट संरचना (चित्र 1.4) के कारण होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के तीन निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रैफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक-दूसरे पर सरक सकती हैं। यह ग्रैफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस-चिकनाई बनाते हैं।



चित्र 1.3— हीरे की नेटवर्क संरचना



चित्र 1.4— ग्रैफाइट की संरचना

चारों प्रकार के ठोसों के विभिन्न गुणों को सारणी 1.2 में सूचीबद्ध किया गया है।

### सारणी 1.2 – विभिन्न प्रकार के ठोस


ठोस का प्रकार	अवयवी कण	बंधन बल	उदाहरण	भौतिक प्रकृति	वैद्युत चालकता	गलनांक
<b>1. आण्विक ठोस</b>						
(i) अधृती	अणु	परिक्षेपण अथवा लंडन बल	Ar, CCl <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> , I <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub>	मुलायम	विद्युतरोधी	अत्यधिक निम्न
(ii) ध्रुतीय	अणु	द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्यक्रिया	HCl, SO <sub>2</sub>	मुलायम	विद्युतरोधी	निम्न
(iii) हाइड्रोजन आबंधित	अणु	हाइड्रोजन आबंध	H <sub>2</sub> O (बर्फ)	कठोर	विद्युतरोधी	निम्न
<b>2. आयनिक ठोस</b>	आयन	कूलॉमी अथवा स्थिर वैद्युत	NaCl, MgO, ZnS, CaF <sub>2</sub>	कठोर परंतु भंगुर	ठोस अवस्था में विद्युतरोधी परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत चालक	उच्च
<b>3. धात्विक ठोस</b>	विस्थानिकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन	धात्विक आबंध	Fe, Cu, Ag, Mg	कठोर परंतु आघातवर्ध्य और तन्य	ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में चालक	साधारण उच्च
<b>4. सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस</b>	परमाणु	सहसंयोजक आबंध	SiO <sub>2</sub> (क्वार्ट्ज़), SiC, C(हीरा), AlN, C (ग्रैफेइट)	कठोर मुलायम	विद्युतरोधी चालक (अपवाद)	अत्यधिक उच्च

### पाठ्यनिहित प्रश्न


- उपस्थित अंतराआण्विक बलों की प्रकृति के आधार निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए – पौटैशियम सल्फेट, टिन, बेन्जीन, यूरिया, अमोनिया, जल, ज़िंक सल्फाइड, ग्रैफेइट, रूबिडियम, ऑर्गन, सिलिकन कार्बाइड।
- ठोस A, अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युतरोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है?
- आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए।
- किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं?

### 1.4 क्रिस्टल जालक और उक्तक कोष्ठिका

क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न है। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए, जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा चित्रित किया गया हो तो, इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस प्रकार दिक्स्थान (स्पेस) में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक के एक भाग को चित्र 1.5 में दिखाया गया है।



चित्र 1.5 – त्रिविमीय घनीय जालक का एक भाग और उसकी एक कोष्ठिका।



चित्र 1.6 – एकक कोष्ठिका के पैरामीटरों का निर्दर्श-चित्र।

### 1.4.1 आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका

केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर, जिसने सर्वप्रथम इनका वर्णन किया, इन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं –

- (क) जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है।
- (ख) क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, एक अणु (परमाणुओं का समूह) अथवा एक आयन हो सकता है।
- (ग) जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके।

एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का लघुतम भाग है, इसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है।

एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण निम्न हैं –

- (i) उसके तीनों किनारों की विमाओं  $a$ ,  $b$  और  $c$  के द्वारा, जो कि परस्पर लंबवत् हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी।
- (ii) किनारों (कोरों) के मध्य कोण  $\alpha$  ( $b$  और  $c$  के मध्य),  $\beta$  ( $a$  और  $c$  के मध्य) और  $\gamma$  ( $a$  और  $b$  के मध्य) के द्वारा। इस प्रकार एकक कोष्ठिका छः पैरामीटरों –  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  और  $\gamma$  द्वारा अभिलक्षणित होती है।

प्रतिरूपी एकक कोष्ठिका के इन पैरामीटरों को चित्र 1.6 में दिखाया गया है।

एकक कोष्ठिका को विस्तृत रूप से दो संवर्गों में बाँटा जा सकता है, आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका।


#### (क) आद्य एकक कोष्ठिका

जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों, तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है।

#### (ख) केंद्रित एकक कोष्ठिका

जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं तीन प्रकार की होती हैं –

- (i) अंतः-केंद्रित एकक कोष्ठिका – ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण (परमाणु, अणु अथवा आयन) कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है।
- (ii) फलक-केंद्रित एकक कोष्ठिका – ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है।
- (iii) अंत्य-केंद्रित एकक कोष्ठिका – ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। कुल सात प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं होती हैं (चित्र 1.7) आद्य एकक कोष्ठिकाएं तथा उनसे बनने वाली केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं के अभिलक्षण सारणी 1.3 में सूचीबद्ध हैं।




चित्र 1.7— क्रिस्टलों में सात प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं

सारणी 1.3— सात आद्य एकक कोष्ठिकाएं और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव विविधताएं


क्रिस्टल तंत्र	संभव विविधताएं	अक्षीय दूरियाँ अथवा कोर लंबाई	अक्षीय कोण	उदाहरण
घनीय	आद्य, अंतःकेंद्रित फलक केंद्रित	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	NaCl, यशद-ब्लौड, Cu
द्विसमलंबाक्ष	आद्य अंतःकेंद्रित	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	श्वेत-टिन, $\text{SnO}_2$ , $\text{TiO}_2$ , $\text{CaSO}_4$
विषमलंबाक्ष	आद्य, अंतःकेंद्रित, फलक-केंद्रित, अंत्य-केंद्रित	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	विषमलंबाक्ष गंधक, $\text{KNO}_3$ , $\text{BaSO}_4$
षट्कोणीय	आद्य	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ$ $\gamma = 120^\circ$	ग्रैफाइट, $\text{ZnO}$ , $\text{CdS}$
त्रिसमनताक्ष अथवा (त्रिकोणी)	आद्य	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	कैलसाइट ( $\text{CaCO}_3$ ), सिनबार ( $\text{HgS}$ )
एकनताक्ष	आद्य, अंत्य केंद्रित	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ$ $\beta \neq 90^\circ$	एकनताक्ष गंधक, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
त्रिनताक्ष	आद्य	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , $\text{H}_3\text{BO}_3$

## 14 प्रकार के ब्रैवे जालकों की उक्तक कोष्ठिकाएँ


तीन घनीय जालक –  
सभी भुजाएँ समान एवं सभी  
फलकों के मध्य  $90^\circ$  कोण




दो द्विसमलंबाक्ष जालक –  
लंबाई में एक भुजा अन्य दो  
से भिन्न एवं सभी फलकों  
के मध्य  $90^\circ$  कोण



चार विषमलंबाक्ष जालक –  
असमान भुजाएँ; सभी फलकों  
के मध्य  $90^\circ$  कोण



दो एकनताक्ष जालक –  
असमान भुजाएँ दो फलकों  
के मध्य कोण  $90^\circ$  से भिन्न  
है।




षट्कोणीय जालक – एक भुजा  
लंबाई में अन्य दो से भिन्न, दो  
फलकों पर चिह्नित कोण  $60^\circ$  है।

त्रिसमनताक्ष जालक – सभी  
भुजाएँ समान लंबाई, दो फलकों  
पर कोण  $90^\circ$  से कम हैं।

त्रिनताक्ष जालक – असमान  
भुजाएँ a, b, c; A, B, C  
असमान कोण हैं जिनमें से कोई  
भी  $90^\circ$  का नहीं है।

## 1.5 उक्त उक्तक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या

### 1.5.1 आद्य घनीय एकक कोष्ठिका



चित्र 1.8—एक सरल एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने का परमाणु 8 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित हैं।

हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिकाओं की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण (परमाणु, अणु अथवा आयन) रहता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक अवयवी कण का कौन सा भाग एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित है।


हम तीन प्रकार के घनीय एकक कोष्ठिकाओं पर विचार करेंगे और सरलता के लिए परमाणु को अवयवी कण मानेंगे।

आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु (अथवा अवयवी कण) केवल कोनों पर होते हैं। कोने का प्रत्येक परमाणु आठ निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है जैसा चित्र 1.8 में दिखाया गया है। चार एकक कोष्ठिकाएं समान परत में और चार एकक कोष्ठिकाएं ऊपरी (अथवा निचली) परत की होती हैं, अतः वास्तव में एक परमाणु (अथवा अणु अथवा आयन) का  $\frac{1}{8}$  वाँ भाग एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है।

चित्र 1.9 में एक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका को तीन भिन्न प्रकारों से चित्रित किया गया है। चित्र 1.9 (क) में प्रत्येक छोटा गोला, उस स्थिति पर उपस्थित कण के केवल केंद्र को निरूपित करता है, उसके वास्तविक आकार को नहीं। ऐसी संरचनाओं को विवृत संरचनाएं कहा जाता है। विवृत संरचनाओं में कणों की व्यवस्था को समझना आसान है। चित्र 1.9 (ख) एकक कोष्ठिका के दिक्स्थान-भराव निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है तथा चित्र 1.9 (ग) एक घनीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को दर्शाता है।

चौंक कुल मिलाकर प्रत्येक घनीय एकक कोष्ठिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं, अतः एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या  $8 \times \frac{1}{8} = 1$  परमाणु होगी।

चित्र 1.9—एक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका  
(क) विवृत संरचना,  
(ख) दिक्स्थान-भराव संरचना,  
(ग) एक एकक कोष्ठिका से संबंधित परमाणुओं के वास्तविक भाग



### 1.5.2 अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका

एक अंतःकेंद्रित घनीय (bcc) एकक कोष्ठिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। चित्र 1.10 अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की— (क) विवृत संरचना, (ख) दिक्स्थान-भराव मॉडल और (ग) एक एकक कोष्ठिका को वास्तविक रूप से संबंधित परमाणुओं के भागों के साथ दर्शाता है। यहाँ यह देखा जा सकता है कि अंतःकेंद्र का परमाणु पूर्णतया उस एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है जिसमें वह उपस्थित होता है। इस प्रकार से एक अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में—


चित्र 1.10— एक अंतः केंद्रित घनीय

एकक कोष्ठिका


(क) विवृत संरचना,

(ख) दिक्स्थान-भराव  
संरचना,


(ग) एक एकक कोष्ठिका  
से संबंधित परमाणुओं  
के वास्तविक भाग



(क)



(ख)




(ग)

$$(i) 8 \text{ कोने} \times \frac{1}{8} \text{ प्रति कोना परमाणु} = 8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ परमाणु}$$

$$(ii) 1 \text{ अंतः केंद्र परमाणु} = 1 \times 1 = 1 \text{ परमाणु}$$

$$\therefore \text{प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या} = 2 \text{ परमाणु}$$

### 1.5.3 फलक-केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका



चित्र 1.11— एकक कोष्ठिका के  
फलक केंद्र पर एक  
परमाणु दो एकक  
कोष्ठिकाओं के मध्य  
सहभाजित है।

फलक-केंद्रित घनीय (fcc) एकक कोष्ठिका में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। चित्र 1.11 में देखा जा सकता है कि फलक केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु दो निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु दो सन्निकट कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है तथा प्रत्येक परमाणु का केवल  $\frac{1}{2}$  भाग एक एकक कोष्ठिका में सम्मिलित होता है। चित्र 1.12 में फलक-केंद्रित एकक कोष्ठिका की— (क) विवृत संरचना, (ख) दिक्स्थान-भराव मॉडल और (ग) एक एकक कोष्ठिका को वास्तविक रूप से संबंधित परमाणुओं के भागों के साथ दर्शाया गया है।

$$(i) 8 \text{ कोने के परमाणु} \times \frac{1}{8} \text{ परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका} = 8 \times \frac{1}{8}$$

$$= 1 \text{ परमाणु}$$

$$(ii) 6 \text{ फलक-केंद्रित परमाणु} \times \frac{1}{2} \text{ परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका} = 6 \times \frac{1}{2}$$

$$= 3 \text{ परमाणु}$$

$$\therefore \text{प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या} = 1 + 3 = 4 \text{ परमाणु}$$


चित्र 1.12— एक फलक-केंद्रित

घनीय एकक कोष्ठिका


(क) विवृत संरचना,

(ख) दिक्स्थान-भराव  
संरचना,


(ग) एक एकक कोष्ठिका  
से संबंधित अणुओं  
के वास्तविक भाग।



(क)



(ख)



(ग)

## पाठ्यनिहित प्रश्न

- 1.10 'जालक बिंदु' से आप क्या समझते हैं?
- 1.11 एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए।
- 1.12 निम्नलिखित में विभेद कीजिए।
  - (i) घटकोणीय और एकनताक्ष एकक कोष्ठिका
  - (ii) फलक केंद्रित और अंत्य-केंद्रित एकक कोष्ठिका।
- 1.13 स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के— (i) कोने और (ii) अंतःकेंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है।

## 1.6 निविड संकुलित संरचनाएँ




चित्र 1.13—एक विमा में गोलों का निविड संकुलन

ठोसों में, अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। आइए, हम अवयवी कणों को समरूप कठोर गोले मानते हुए तीन पदों में त्रिविमीय संरचना को निर्मित करें।


### (क) एक विमा में निविड संकुलन

एकविमीय निविड संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पर्कित में एक-दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है (चित्र 1.13)।

इस व्यवस्था में, प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है। इस प्रकार एकविमीय निविड संकुलित व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या दो हैं।



(क)



(ख)

चित्र 1.14—द्विविम में

- (क) वर्ग निविड संकुलन
- (ख) गोलों का घटकोणीय निविड संकुलन

(ख) द्वितीय पर्कित को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पर्कित के गोले प्रथम पर्कित के गोलों के ठीक ऊपर हों एवं दोनों पर्कितयों के गोले क्षैतिजीय तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। यदि प्रथम पर्कित को हम 'A' प्रकार की पर्कित कहते हैं तो द्वितीय पर्कित प्रथम पर्कित के ठीक समान होने से, वह भी 'A' प्रकार की होगी। इसी प्रकार से अधिक पर्कितयों को रखकर AAA प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है जैसा कि चित्र 1.14(क) में दिखाया गया है।

इस व्यवस्था में, प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या चार है। साथ ही यदि इन सन्निकट चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है। अतः इस संकुलन को द्विविम में वर्ग निविड संकुलन कहा जाता है।

(ii) द्वितीय पर्कित को प्रथम के ऊपर सांतरित रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसके गोले प्रथम पर्कित के अवनमनों में ठीक आ जाएं। यदि प्रथम पर्कित के गोलों

की व्यवस्था को 'A' प्रकार कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि भिन्न है, उसे 'B' प्रकार कहा जा सकता है। जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय के निकट सांतरित रूप से रखा जाता है तो उसके गोले प्रथम तल के गोलों से संरेखित होते हैं। अतः यह तल भी 'A' प्रकार का है। इसी प्रकार से रखे गए चौथी पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति ('B' प्रकार) से संरेखित होते हैं। अतः यह व्यवस्था ABAB प्रकार की है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है और इसमें संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन से अधिक दक्ष है। प्रत्येक गोला छः निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और द्विविमीय उपसहस्रयोजन संख्या छः है। इन छः गोलों के केंद्र सम-षट्कोण के कोनों पर हैं (चित्र 1.14 ख)। इस प्रकार इस संकुलन को द्विविम षट्कोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। चित्र 1.14 (ख) में यह देखा जा सकता है कि इस तल में कुछ रिक्तियाँ (रिक्त स्थान) हैं। यह त्रिकोणीय आकृति की हैं। त्रिकोणीय रिक्तियाँ दो प्रकार की हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और अगली पंक्ति में अधोमुखी है।


### (ग) त्रिविम में निविड़ संकुलन

सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं। यह द्विविमीय परतों को एक-दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं। पिछले खंड में हमने द्विविम में निविड़ संकुलन की विवेचना की जो कि दो प्रकार की हो सकती है; वर्ग निविड़ संकुलित और षट्कोणीय निविड़ संकुलित। आइए, हम देखते हैं कि इनसे कितने प्रकार के त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं।


(i) **द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन** – जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका पालन हमने एक पंक्ति को दूसरी के निकट रखने में किया था। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहें। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे में होते हैं जैसा चित्र 1.15 में दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम और परतों को एक-दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को 'A' प्रकार कहा जाए तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। इस प्रकार इस जालक में AAA प्रकार का पैटर्न है। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोणिका आद्य-घनीय एकक कोणिका है (चित्र 1.9)।

(ii) **द्विविम-षट्कोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन** – इसमें परतों को एक-दूसरे पर रखकर त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना निम्न प्रकार से जनित की जा सकती है।

(क) **द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखना** – आइए, हम एक द्विविम-षट्कोणीय निविड़ संकुलित परत 'A' लेते हैं और एक वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। चूँकि दो परतों के गोले भिन्न प्रकार से संरेखित हैं, अतः द्वितीय परत को हम B परत कहते हैं। यह चित्र 1.16 में देखा जा सकता है कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं हैं। इससे अलग-अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत




चित्र 1.15 – AAA... व्यवस्था से बनने वाला सरल घनीय जालक



चित्र 1.16—निविड संकुलित गोलों की दो परतों का एक स्तंभ और उनमें जनित होने वाली रिक्तियाँ।  
 T = चतुष्फलकीय रिक्ति  
 O = अष्टफलकीय रिक्ति

की रिक्ति के ऊपर होता है (अथवा विलोमतः) तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं क्योंकि जब इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है। इन्हें चित्र 1.16 में 'T' से अंकित किया गया है। ऐसी एक रिक्ति को अलग से चित्र 1.17 में दिखाया गया है।



चित्र 1.17—चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ  
 (क) ऊपरी दृश्य  
 (ख) खोड़ित पार्श्व दृश्य  
 (ग) रिक्ति का ज्यामितीय आकार

अन्य स्थानों पर, द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ, प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हैं और इनकी त्रिकोणीय आकृतियाँ अतिव्यापित नहीं होतीं। उनमें से एक में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और दूसरे में अधोमुखी होता है। इन रिक्तियों को चित्र 1.16 में 'O' से अंकित किया गया है। ऐसी रिक्तियाँ छः गोलों से घिरी होती हैं और इन्हें अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। ऐसी एक रिक्ति को अलग से चित्र 1.17 में दिखाया गया है। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है।

माना कि निविड संकुलित गोलों की संख्या N है, तब —


जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या = N

जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या = 2N

(ख) तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना — जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है, तब दो संभावनाएं होती हैं।

(i) चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन — द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत्त होता है। इस पैटर्न को प्रायः ABAB... पैटर्न लिखा जाता है। इस संरचना


को प्रट्कोणीय निविड़ संकुलित (*hcp*) संरचना कहते हैं (चित्र 1.18)। इस प्रकार की परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं जैसे मैग्नीशियम और ज़िंक में पाई जाती है।



- चित्र 1.18-(क) प्रट्कोणीय घनीय निविड़ संकुलन का खंडित दृश्य गोलों की परतों का संकुलन दर्शाते हुए।  
(ख) प्रत्येक स्थिति में चार परतें स्तंभ के रूप में  
(ग) संकुलन की ज्यामिति

(ii) अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन – तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रख सकते हैं कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हों। इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ सरेखित नहीं होते। इस व्यवस्था को 'C' प्रकार कहा जाता है। केवल चौथी परत रखने पर, उसके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ सरेखित होते हैं जैसा चित्र 1.18 और 1.19 में दिखाया गया है।

- चित्र 1.19-(क) परतों की ABCABC... व्यवस्था जब अष्टफलकीय रिक्तियाँ आच्छादित होती हैं।  
(ख) इस व्यवस्था द्वारा निर्मित होने वाली संरचना का अंश जिसके परिणामस्वरूप घनीय निविड़ संकुलित (*ccp*) अथवा फलक-केंद्रित घनीय (*fcc*) संरचना बनती है।



इस प्रकार के पैटर्न को प्रायः ABCABC... लिखा जाता है। इस संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना (*ccp*) अथवा फलक केंद्रित घनीय (*fcc*) संरचना कहा जाता है। धातु, जैसे – ताँबा तथा चाँदी इस संरचना में क्रिस्टलित होते हैं।

ये दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन अति उच्च क्षमता वाले होते हैं और क्रिस्टल का 74% स्थान संपूरित रहता है। इन दोनों में, प्रत्येक गोला बारह गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार इन दोनों संरचनाओं में उपसहसंयोजन संख्या 12 है।

### 1.6.1 यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या

हमने इससे पहले के खंड में सीखा कि जब कणों के निविड़ संकुलन से *ccp* अथवा *hcp* संरचना बनती है तो दो प्रकार की रिक्तियाँ जनित होती हैं तथा जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या की द्विगुनी होती है। आयनी ठोसों में बृहत आयन (साधारणतः ऋणायन) निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं और लघुतर आयन (साधारणतः धनायन) रिक्तियों में भरते हैं। यदि धनायन पर्याप्त लघु हों तब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और यदि बृहत हों तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ अध्यासित होती हैं। सभी चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियाँ अध्यासित नहीं होती। किसी दिए गए यौगिक में अष्टफलकीय अथवा चतुष्फलकीय रिक्तियों का अध्यासित होने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है।

#### उदाहरण 1.1

एक यौगिक दो तत्वों X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं (ऋणायन) से *ccp* बनता है और X तत्व के परमाणु (धनायन) सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है?

**हल**

*ccp* जालक, तत्व Y से बनता है, जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित Y परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। चूँकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ तत्व X के परमाणुओं से अध्यासित हैं, उनकी संख्या भी तत्व Y के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। इस प्रकार तत्व X और Y के परमाणु बराबर संख्या अथवा 1:1 अनुपात में उपस्थित हैं। अतः यौगिक का सूत्र XY है।

#### उदाहरण 1.2

तत्व B के परमाणुओं से *hcp* जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है?

**हल**

जालक में बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तत्व B के परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। केवल 2/3 रिक्तियाँ ही तत्व A के परमाणुओं से अध्यासित हैं। अतः A और B परमाणुओं की संख्या का अनुपात  $2 \times (2/3):1$  अथवा 4:3 है इसलिए यौगिक का सूत्र  $A_4B_3$  है।

## 1.7 संकुलन क्षमता


अवयवी कणों (परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों) के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। आइए, हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में संकुलन क्षमता का परिकलन करें।

### 1.7.1 *hcp* और *ccp* संरचनाओं में संकुलन क्षमता

दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन (*hcp* और *ccp*) समान क्षमता वाले हैं। आइए, *ccp* संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। चित्र 1.20 में, यदि एकक कोणिका के कोर (Edge या किनारा) की लंबाई 'a' हो तथा फलक विकर्ण  $AC = b$  हो, तो


## चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना

हम जानते हैं कि निविड़ संकुलित संरचनाओं में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, दोनों प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। आइए, हम *ccp* (अथवा *fcc*) संरचना लेकर उसमें इन रिक्तियों का स्थान निर्धारित करते हैं।



चित्र 1- (क) *ccp* संरचना के प्रति एकक कोष्ठिका में 8 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ

(ख) एक चतुष्फलकीय रिक्ति ज्ञामिती प्रदर्शित करते हुए।



चित्र 2- *ccp* अथवा *fcc* जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति का निर्धारण

(क) घन के अंतःकेंद्र पर  
(ख) प्रत्येक कार (edge) के केंद्र पर (केवल एक ऐसी रिक्ति को प्रदर्शित किया गया है)

### (क) चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना

आइए, हम *ccp* अथवा *fcc* जालक की एकक कोष्ठिका पर विचार करते हैं (चित्र 1 क)। एकक कोष्ठिका को आठ लघु घनों में विभाजित करते हैं।

प्रत्येक लघु घन में परमाणु एकांतर कोनों पर हैं (चित्र 1 क)। कुल मिलाकर, प्रत्येक लघु घन में 4 परमाणु हैं। एक-दूसरे से जोड़ने पर यह एक समचतुष्फलक बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लघु घन में एक चतुष्फलकीय रिक्ति है और कुल आठ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं। *ccp* संरचना के एक एकक कोष्ठिका के आठों लघु घनों में से प्रत्येक में एक रिक्ति है। हम जानते हैं कि *ccp* संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है।

### (ख) अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना


अब हम पुनः *ccp* अथवा *fcc* जालक की एकक कोष्ठिका पर विचार करते हैं (चित्र 2 क)। घन का अंतःकेंद्र अध्यासित नहीं है लेकिन यह फलक केंद्रों पर स्थित छः परमाणुओं से घिरा है। यदि इन फलक केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक अष्टफलक जनित होता है। अतः इस एकक कोष्ठिका में एक अष्टफलकीय रिक्ति घन के अंतः केंद्र पर है।

अंतः केंद्र के अतिरिक्त, 12 किनारों में से प्रत्येक के केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्ति है (चित्र 2 ख)। यह छः परमाणुओं से घिरा रहता है, जिनमें चार उसी एकक कोष्ठिका से (2 कोनों पर और 2 फलक केंद्र पर) और दो निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित होते हैं। चूँकि घन का प्रत्येक किनारा चार निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, इसी प्रकार उस पर स्थित अष्टफलकीय रिक्ति भी सहभाजित होती है। प्रत्येक रिक्ति का केवल  $1/4$  भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। इस प्रकार घनीय सुसंकुलित संरचना में घन के अंतः केंद्र पर अष्टफलकीय रिक्ति = 1

12 अष्टफलकीय रिक्तियाँ प्रत्येक किनारे पर स्थित हैं और चार एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित हैं =  $12 \times \frac{1}{4} = 3$

$\therefore$  कुल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या = 4

हम जानते हैं कि *ccp* संरचना में प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। इस प्रकार अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या के बराबर है।



चित्र 1.20—घनीय निकिड संकुलित सरचना स्पष्ट करने हेतु दूसरे कोरों में गोलकों को नहीं रखा गया है।

$\Delta ABC$  में,

$$\begin{aligned} AC^2 &= b^2 = BC^2 + AB^2 \\ &= a^2 + a^2 = 2a^2 \end{aligned}$$

$$\text{या } b = \sqrt{2} a$$

यदि गोले का अर्धव्यास  $r$  हो, तो

$$b = 4r = \sqrt{2} a$$

$$\text{या } a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} r$$


$$(हम ऐसे भी लिख सकते हैं,  $r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ )$$

हम जानते हैं कि  $ccp$  सरचना में प्रभावी रूप से, प्रति एकक कोष्ठिका 4 गोले होते हैं। चार गोलों का कुल आयतन  $4 \times (4/3)\pi r^3$  के बराबर होता है और

घन का आयतन  $a^3$  या  $(2\sqrt{2}r)^3$  होता है। अतः

$$\begin{aligned} \text{संकुलन क्षमता} &= \frac{\text{एकक कोष्ठिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन} \times 100 \%}{\text{एकक कोष्ठिका का कुल आयतन}} \\ &= \frac{4 \times (4/3)\pi r^3 \times 100 \%}{(2\sqrt{2}r)^3} \\ &= \frac{(16/3)\pi r^3 \times 100 \%}{16\sqrt{2}r^3} = 74\% \end{aligned}$$

### 1.7.2 अंतःकेंद्रित धनीय सरचनाओं में संकुलन क्षमता



चित्र 1.21—अंतःकेंद्रित धनीय एकक कोष्ठिका (काय विकर्ण पर उपस्थित गोलों को दोस विकर्णों पर दर्शाया गया है)।

$\Delta EFD$  में,

$$b^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$b = \sqrt{2} a$$

अब  $\Delta AFD$  में,

$$c^2 = a^2 + b^2 = a^2 + 2a^2 = 3a^2$$

$$c = \sqrt{3} a$$

काय विकर्ण 'c' की लंबाई  $4r$  के बराबर है, जहाँ  $r$  गोले (परमाणु) का अर्धव्यास है, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक-दूसरे के संपर्क में हैं। अतः

$$\sqrt{3} a = 4r$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$


अतः यह भी लिख सकते हैं कि,  $r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$

इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या 2 है तथा उनका आयतन  $2 \times (4/3)\pi r^3$  है।

घन का आयतन  $a^3$ ,  $\left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3$  के बराबर होगा अथवा  $a^3 = \left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3$  अतः

$$\begin{aligned} \text{संकुलन क्षमता} &= \frac{\text{एकक कोष्ठिका में दो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन} \times 100}{\text{एकक कोष्ठिका का कुल आयतन}} \% \\ &= \frac{2 \times (4/3)\pi r^3 \times 100}{[(4/\sqrt{3})r]^3} \% \\ &= \frac{(8/3)\pi r^3 \times 100}{64/(3\sqrt{3})r^3} \% = 68\% \end{aligned}$$

### 1.7.3 सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता



चित्र 1.22— सरल घनीय एकक कोष्ठिका। घन के कोर की दिशा में गोले एक-दूसरे के संपर्क में हैं।

एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोरों पर उपस्थित होते हैं। घन के किनारों (कोरों) पर कण एक-दूसरे के संपर्क में होते हैं। (चित्र 1.22)।

इसलिए घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई 'a' और प्रत्येक कण का अर्धव्यास,  $r$  निम्न प्रकार से संबंधित है –

$$a = 2r$$

घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन =  $a^3 = (2r)^3 = 8r^3$

चौंक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में केवल 1 परमाणु होता है। अतः

$$\text{अध्यासित दिक्खस्थान का आयतन} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{संकुलन क्षमता} &= \frac{\text{एक परमाणु का आयतन}}{\text{घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन}} \times 100 \% \\ &= \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{8r^3} \times 100 \\ &= \frac{\pi}{6} \times 100 \\ &= 52.36\% = 52.4 \% \end{aligned}$$

इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि *ccp* और *hcp* संरचनाओं में अधिकतम संकुलन क्षमता है।

## 1.8 उक्तक कोष्ठिका विमा संबंधी थण्डाऊँ

एकक कोष्ठिका विमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना संभव है। धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एकक कोष्ठिका के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर आवोगाड्रो स्थिरांक का मान प्राप्त करने की परिशुद्ध विधि मिल जाती है। माना कि एक्स-किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की

एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई  $a$ , ठोस पदार्थ का घनत्व  $d$  तथा मोलर द्रव्यमान  $M$  है। तब घनीय क्रिस्टल में –

$$\text{एकक कोष्ठिका का आयतन} = a^3$$

$$\begin{aligned}\text{एकक कोष्ठिका} &= \text{एकक कोष्ठिका में } \times \text{एक परमाणु का} \\ \text{का द्रव्यमान} &= \text{परमाणु की संख्या } \times \text{द्रव्यमान} = z \times m\end{aligned}$$

(यहाँ  $z$  एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है तथा  $m$  एक परमाणु का द्रव्यमान है।)

एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान –

$$m = \frac{M}{N_A} (M \text{ मोलर द्रव्यमान है})$$

$$\begin{aligned}\text{अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व, } d &= \frac{\text{एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान}}{\text{एकक कोष्ठिका का आयतन}} \\ &= \frac{z.m}{a^3} \\ &= \frac{z.M}{a^3.N_A} \\ \text{या } d &= \frac{zM}{a^3 N_A}\end{aligned}$$

याद रहे कि एकक कोष्ठिका एवं पदार्थ का घनत्व बराबर होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है। पाँच पैरामीटरों ( $d, z, M, a$ , तथा  $N_A$ ) में से यदि कोई भी चार ज्ञात हों, तो पाँचवें को ज्ञात किया जा सकता है।

### उदाहरण 1.3

एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतःकेंद्रित घन (bcc) है कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व  $7.2 \text{ g/cm}^3$  है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं?

**हल**

$$\begin{aligned}\text{एकक कोष्ठिका का आयतन} &= (288 \text{ pm})^3 = (288 \times 10^{-12} \text{ m}) \\ &= (288 \times 10^{-10} \text{ cm})^3 \\ &= 2.39 \times 10^{-23} \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$208 \text{ g तत्व का आयतन} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{घनत्व}} = \frac{208g}{7.2 \text{ g cm}^{-3}} = 28.88 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned}\text{इस आयतन में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या} &= \frac{28.88 \text{ cm}^3}{2.39 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 / \text{एकक कोष्ठिका}} \\ &= 12.08 \times 10^{23} \text{ एकक कोष्ठिकाएं}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{चूँकि प्रत्येक bcc एकक कोष्ठिका में } 2 \text{ परमाणु होते हैं अतः } 208 \text{ ग्राम तत्व में } \\ \text{परमाणुओं की संख्या} &= 2 \text{ (परमाणु/एकक कोष्ठिका)} \times 12.08 \times 10^{23} \text{ एकक कोष्ठिका} \\ &= 24.16 \times 10^{23} \text{ परमाणु}\end{aligned}$$

**उदाहरण 1.4** एक्स-किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि ताँबा  $3.608 \times 10^{-8}$  कोष्ठिका कोर के साथ fcc एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में ताँबे का घनत्व  $8.92 \text{ g/cm}^3$  ज्ञात किया गया। ताँबे के परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

**हल** fcc जालक में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या,  $z = 4$

$$\begin{aligned}\text{अतः } M &= \frac{d N_A a^3}{z} \\ &= \frac{8.92 \text{ g cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ atoms mol}^{-1} \times (3.608 \times 10^{-8} \text{ cm})^3}{4 \text{ atoms}} \\ &= 63.1 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

ताँबे का परमाणिक द्रव्यमान =  $63.1 \text{ u}$

**उदाहरण 1.5** सिल्वर ccp जालक बनाता है। एक्स-किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई  $408.6 \text{ pm}$  है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। (परमाणिक द्रव्यमान =  $107.9 \text{ u}$ )

**हल** चौंकी ccp जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में सिल्वर परमाणुओं की संख्या,  $z = 4$

सिल्वर का मोलर द्रव्यमान =  $107.9 \text{ g mol}^{-1} = 107.9 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$

एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई =  $a = 408.6 \text{ pm} = 408.6 \times 10^{-12} \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{घनत्व, } d &= \frac{z.M}{a^3.N_A} = \frac{4 \times (107.9 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1})}{(408.6 \times 10^{-12} \text{ m})^3 (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})} \\ &= 10.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \\ &= 10.5 \text{ g cm}^{-3}\end{aligned}$$

### पाठ्यनिहित प्रश्न

**1.14** एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या क्या है?

**1.15** एक यौगिक प्रट्कोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है। इसके  $0.5$  मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुर्षकलकीय हैं?

**1.16** एक यौगिक, दो तत्वों M और N से बना है। तत्व N, ccp संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुर्षकलकीय रिक्तियों के  $1/3$  भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है?

**1.17** निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है?

(i) सरल घनीय, (ii) अंतः केंद्रित घन और (iii) प्रट्कोणीय निविड संकुलित जालक

**1.18** एक तत्व का मोलर द्रव्यमान  $2.7 \times 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1}$  है, यह  $405 \text{ pm}$  लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व  $2.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है?

## 1.9 ठोसों में अपूर्णताएँ

यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में लघु परास के साथ-साथ दीर्घ परास क्रम भी होता है, फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन लघु क्रिस्टलों में दोष होते हैं। यह तब होता है जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र अथवा साधारण गति से होती है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है तब एकल क्रिस्टल बनता है। ये क्रिस्टल भी दोषमुक्त नहीं होते। ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएँ हैं। व्यापक रूप से ये दोष दो प्रकार के होते हैं यानी बिंदु दोष और रेखीय दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएँ अथवा विचलन, बिंदु दोष होते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पर्याप्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएँ अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। हम अपना विवेचन केवल बिंदु दोष तक ही सीमित रखेंगे।

### 1.9.1 बिंदु दोषों के प्रकार


बिंदु दोषों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

(क) स्टॉइकियोमीट्री दोष (ख) अशुद्धता दोष और (ग) नानस्टॉइकियोमीट्री दोष।

#### (क) स्टॉइकियोमीट्री दोष


ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टॉइकियोमीट्री को विक्षुल्य नहीं करते। इन्हें अंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। आधारभूत रूप से यह दो प्रकार के होते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष।

(i) **रिक्तिका दोष** – जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है (चित्र 1.23)। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ को गरम करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है।




चित्र 1.23 – रिक्तिका दोष

(ii) **अंतराकाशी दोष** – जब कुछ अवयवी कण (परमाणु अथवा अणु) अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है (चित्र 1.24)। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ऊपर समझाए गए रिक्तिका और अंतराकाशी दोष अनआयनिक (non-ionic) ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सौंदर्य विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। यह इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय, फ्रेंकेल और शॉट्की दोषों की तरह दिखाते हैं।




चित्र 1.24 – अंतराकाशी दोष

(iii) **फ्रेंकेल दोष** – यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन (साधारणतः धनायन) अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अन्तराकाश स्थान में चला जाता है (चित्र 1.25)। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रेंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। फ्रेंकेल दोष उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, उदाहरण के लिए ZnS, AgCl, AgBr और AgI में यह दोष  $Zn^{2+}$  और  $Ag^+$  आयन के लघु आकार के कारण होता है।



चित्र 1.25 – फ्रेंकेल दोष

(iv) **शॉट्की दोष** – यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है (चित्र 1.26)।



चित्र 1.26 – शॉट्की दोष

सरल रिक्तिका दोष की भाँति, शॉट्की दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए  $\text{NaCl}$  में कमरे के ताप पर लगभग  $10^6$  शॉट्की युगल प्रति  $\text{cm}^3$  होते हैं। एक  $\text{cm}^3$  में करीब  $10^{22}$  आयन होते हैं। इस प्रकार प्रति  $10^{16}$  आयनों में एक शॉट्की दोष होता है। शॉट्की दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{CsCl}$  और  $\text{AgBr}$ . यह ध्यान देने योग्य है कि  $\text{AgBr}$  फ्रैकेल तथा शॉट्की दोनों ही दोष दिखाता है।

#### (ख) अशुद्धता दोष

यदि अल्प मात्रा में  $\text{SrCl}_2$  युक्त गलित  $\text{NaCl}$  को क्रिस्टलीकृत किया जाए, तो  $\text{Na}^+$  के कुछ स्थान  $\text{Sr}^{2+}$  द्वारा घेर लिए जाते हैं (चित्र 1.27)। प्रत्येक  $\text{Sr}^{2+}$  दो  $\text{Na}^+$  आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या  $\text{Sr}^{2+}$  आयनों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण  $\text{CdCl}_2$  तथा  $\text{AgCl}$  का ठोस विलयन है।



#### (ग) नानस्टॉइकियोमीट्री दोष

अब तक वर्णित दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टॉइकियोमीट्री को विक्षुब्ध नहीं करते फिर भी अत्यधिक संख्या में नानस्टॉइकियोमीट्री अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं, जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नानस्टॉइकियोमीट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं— (i) धातु आधिक्य दोष एवं (ii) धातु न्यूनता दोष


##### (i) धातु आधिक्य दोष

- ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष — क्षारकीय हैलाइड, जैसे  $\text{NaCl}$  और  $\text{KCl}$ , इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। जब  $\text{NaCl}$  के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गरम किया जाता है, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं।  $\text{Cl}^-$  आयन क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं और  $\text{Na}^+$  परमाणुओं के साथ जुड़कर  $\text{NaCl}$  देते हैं। ऐसा  $\text{Na}^+$  आयन बनाने के लिए  $\text{Na}$  परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं (चित्र 1.28)। परिणामस्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को  $\text{F}^-$ -केंद्र कहते हैं (रंग केंद्र के लिए जर्मन शब्द फारबेनज्नेटर से)। ये  $\text{NaCl}$  के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। यह रंग, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणामस्वरूप दिखता है। इसी प्रकार लीथियम का आधिक्य  $\text{LiCl}$  क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है और पोटैशियम का आधिक्य  $\text{KCl}$  क्रिस्टल को बैंगनी (अथवा लाइलैक) बनाता है।

- अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष — कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ्टेन रंग का होता है। गरम करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है।



चित्र 1.27 –  $\text{NaCl}$  में  $\text{Na}^+$  के  $\text{Sr}^{2+}$  द्वारा प्रतिस्थापन से धनायन रिक्तिका उत्पन्न होना



चित्र 1.28 – क्रिस्टल में एक  $\text{F}^-$  केंद्र

अब क्रिस्टल में ज़िंक का आधिक्य होता है तथा इसका सूत्र  $Zn_{1+x}O$  बन जाता है। आधिक्य में उपस्थित  $Zn^{2+}$  आयन अंतराकाशी स्थलों में, और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं।

(ii) धातु न्यूनता दोष – कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें स्टॉइकियोमीट्री संघटन में बनाना कठिन होता है एवं इनमें स्टॉइकियोमीट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण  $FeO$  है यह अधिकतर  $Fe_{0.95}O$  संघटन में पाया जाता है। यह वास्तव में  $Fe_{0.93}O$  से  $Fe_{0.96}O$  की परास में हो सकता है।  $FeO$  के क्रिस्टल में से कुछ  $Fe^{2+}$  धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति  $Fe^{3+}$  आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है।

## 1.10 विद्युतीय धुण

ठोस विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं जिनके परिमाणों का परास  $10^{-20}$  से लेकर  $10^7 \text{ ohm}^{-1} \text{ m}^{-1}$  तक लगभग 27 कोटियों में फैला होता है। चालकता के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

### (i) चालक

वे ठोस जिनकी चालकता का परास  $10^4$  से  $10^7 \text{ ohm}^{-1} \text{ m}^{-1}$  के मध्य हो चालक कहलाते हैं। धातुओं की चालकता की कोटि  $10^7 \text{ ohm}^{-1} \text{ m}^{-1}$  होती है और ये उत्तम चालक होते हैं।

### (ii) विद्युतरोधी

ये वे ठोस हैं जिनकी चालकता बहुत कम,  $10^{-20}$  से  $10^{-10} \text{ ohm}^{-1} \text{ m}^{-1}$  के परास के मध्य होती है।

### (iii) अर्धचालक

ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता  $10^{-6}$  से  $10^4 \text{ ohm}^{-1} \text{ m}^{-1}$  तक के मध्यवर्ती परास में होती है।

चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन द्वारा होता है। धात्विक चालक पहले संवर्ग में (इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालन) और विद्युतअधट्य पिछले संवर्ग (आयनों द्वारा चालन) में आते हैं।

धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती हैं। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणिक कक्षकों से आणिक कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी पास-पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा बाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं जिससे धातु चालकता दर्शाती है (चित्र 1.29 क)।


यदि पूरित संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड (चालकता बैंड) के मध्य अंतराल अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लाँघ सकते और ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तथा यह एक विद्युतरोधी के समान व्यवहार करते हैं (चित्र 1.29 ख)।

अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है (चित्र 1.29 ग)। अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लाँघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। सिलिकन एवं जमैनियम

### 1.10.2 v / प्रक्षेपण fo | q प्रक्षेपण

जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा इन्हें नैज-अर्धचालक (Intrinsic-semiconductors) कहते हैं।

- चित्र 1.29—(क) धातुओं,  
(ख) चालकता रोधियों एवं  
(ग) अर्धचालकों में विभेद,  
प्रत्येक श्रेणी में संग्रहित  
(अनशोड़ेड) क्षेत्र  
चालकता बैंड को  
दर्शाता है।



इन नैज-अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नैज-अर्धचालक सिलिकन अथवा जमैनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाता है।

#### (क) इलेक्ट्रॉन-धनी अशुद्धियाँ


सिलिकन और जमैनियम आवर्तसारणी के चौदहवें वर्ग से संबंधित हैं और प्रत्येक में चार संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणुओं के साथ चार सहसंयोजक बंध बनाता है (चित्र 1.30 क)। जब पंद्रहवें वर्ग के तत्व जैसे P अथवा As, जिनमें पाँच संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अपमिश्रित किया जाता है, तो यह सिलिकन अथवा जमैनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं (चित्र 1.30 ख)। पाँच में से चार इलेक्ट्रॉनों का उपयोग चार सन्निकट सिलिकन परमाणुओं के साथ चार सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। पाँचवाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानित हो जाता है। यह विस्थानित इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकन (अथवा जमैनियम) की चालकता में वृद्धि करते हैं। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, अतः इलेक्ट्रॉन-धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकन को n-प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है।

#### (ख) इलेक्ट्रॉन-न्यून अशुद्धियाँ

सिलिकन अथवा जरमेनियम को वर्ग 13 के तत्वों जैसे B, Al अथवा Ga के साथ भी अपमिश्रित किया जा सकता है जिनमें केवल तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिक्त या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है (चित्र 1.30 ग)। निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है। यदि ऐसा हो तो यह प्रतीत होगा जैसे

कि इलेक्ट्रॉन छिद्र, जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, परंतु ऐसा प्रतीत होगा; जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित हैं और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहे हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों को *p*-प्रकार के अर्धचालक कहते हैं।

चित्र 1.30— वर्ग 13 और 15 के तत्वों को अपमिश्रित करके *n*-और *p*-प्रकार के अर्धचालकों की सृष्टि



### *n*-प्रकार और *p*-प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग

*n*-प्रकार और *p*-प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजनों को इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में उपयोग किया जाता है। डायोड *n*-प्रकार और *p*-प्रकार के अर्धचालकों का एक संयोजन है और परिशोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के मध्य अंतर्दर्बन (सैंडविच) करके बनाए जाते हैं। *npn* और *pnp* प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। सौर सेल एक दक्ष फोटो-डायोड है जिसका उपयोग प्रकाश-ऊर्जा को विद्युत-ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है।


जैमैनियम तथा सिलिकन वर्ग 14 के तत्व हैं अतः इनकी अभिलाक्षणिक संयोजकता चार है तथा चार बंध बनते हैं, जैसे हीरे में। वर्ग 13 एवं 15 अथवा वर्ग 12 तथा 16 के तत्वों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए गए हैं जिनकी औसत संयोजकता Ge या Si के समान चार है। इनमें से वर्ग 13–15 के विशिष्ट यौगिक InSb, AlP तथा GaAs हैं। गैलियम आर्सेनाइड (GaAs) अर्द्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं; इन्होंने अर्द्धचालक युक्तियों के निर्माण में क्रांतिकारी हलचल ला दी है। ZnS, CdS, CdSe तथा HgTe, वर्ग 12–16 के यौगिकों के उदाहरण हैं। इन यौगिकों में बंध पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते तथा इनके आयनिक गुण इनमें उपस्थित दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते हैं।

यह जानना बहुत रोचक होगा कि संक्रमण धातु ऑक्साइडों के वैद्युतीय गुणों में बहुत अधिक अंतर होता है।  $TiO_2$ ,  $CrO_2$  तथा  $ReO_3$  धातु के समान व्यवहार करते हैं। चालकता में तथा दिखने में  $ReO_3$  कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे  $VO$ ,  $VO_2$ ,  $VO_3$  तथा  $TiO_3$  के धात्विक एवं रोधी गुण ताप पर निर्भर होते हैं।

## 1.11 चुंबकीय गुण

सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संर्वथित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है (i) उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति और (ii) उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण (चित्र 1.31)।

- चित्र 1.31—(क) इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति,  
(ख) इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण का निर्दर्शन



इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है इसे मापे जाने वाली इकाई को बोर मैग्नेटॉन,  $\mu_B$  कहा जाता है। यह  $9.27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$  के बराबर होता है।

पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर पाँच संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है – (i) अनुचुंबकीय (ii) प्रतिचुंबकीय (iii) लोहचुंबकीय (iv) प्रतिलोहचुंबकीय (v) फेरीचुंबकीय

### (i) अनुचुंबकत्व

अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।  $O_2$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $Cr^{3+}$  ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।

### (ii) प्रतिचुंबकत्व


प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं।  $H_2O$ ,  $NaCl$  और  $C_6H_6$  ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं और इनमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते।

### (iii) लोहचुंबकत्व

कुछ पदार्थ, जैसे— लोहा, कोबाल्ट, निकैल, गैडोलिनियम और  $CrO_2$  बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लोहचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में, लोहचुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं इन्हें डोमेन

कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लौहचुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं (चित्र 1.32 क) और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है और लौहचुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं।

- चित्र 1.32—चुंबकीय आघूर्ण का व्यवस्थित संरेखण (क) लौहचुंबकीय, (ख) प्रतिलौहचुंबकीय और (ग) फेरीचुंबकीय



#### (iv) प्रतिलौहचुंबकत्व

प्रतिलौहचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे  $MnO$  में डोमेन संरचना लौहचुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं (चित्र 1.32 ख)।

#### (v) फेरीचुंबकत्व

जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर एवं प्रतिसमानांतर दिशाओं में असमान होता है तब पदार्थ में फेरीचुंबकत्व देखा जाता है (चित्र 1.32 ग)। ये लौहचुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं।  $Fe_3O_4$  (मैग्नेटाइट) और फेराइट जैसे  $MgFe_2O_4$ ,  $ZnFe_2O_4$  ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं। ये पदार्थ भी गरम करने पर फेरीचुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं।

### पाठ्यनिहित प्रश्न

- 1.19 जब एक ठोस को गरम किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार?
- 1.20 निम्नलिखित किस प्रकार का स्टॉइकियोमीट्री दोष दर्शाते हैं?
  - (i)  $ZnS$
  - (ii)  $AgBr$
- 1.21 समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं।
- 1.22 जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती हैं, वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए।
- 1.23 वर्ग 14 के तत्व को  $n$ -प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए?
- 1.24 किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौहचुंबकीय अथवा फेरीचुंबकीय? अपने उत्तर का औचित्य बताइए।

## सारांश

ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। यह उनके कणों की नियत स्थिति, उनके मध्य लघु दूरी और उनके बीच प्रबल अन्योन्यक्रियाओं के कारण होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है जिसके परिणामस्वरूप ये अतिशीतित द्रवों के समान व्यवहार करते हैं। गलनांक सुस्पष्ट नहीं होता और समर्दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। इनका गलनांक सुस्पष्ट होता है, विषमर्दैशिक प्रकृति के होते हैं और उनके कणों की विशिष्ट आकृतियाँ होती हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गुण उनके अवयवी कणों के मध्य अन्योन्यक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस आधार पर इन्हें आणिक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस नामक चार संवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये गुणों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।

क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित होता है। यह व्यवस्था प्रायः बिंदुओं के त्रिविमीय क्रम-विन्यास द्वारा चित्रित की जाती है, जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। प्रत्येक जालक बिंदु दिक्स्थान में एक कण की स्थिति बताता है। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के चौदह जालक संभव हैं जिन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। जालक का लघु अभिलक्षणिक भाग जिसे एकक कोष्ठिका कहा जाता है, की पुनरावृत्ति से प्रत्येक जालक जनित किया जा सकता है। किसी एकक कोष्ठिका की विशेषताएं उसकी कोर-लंबाई और इन कोरों के मध्य तीन कणों द्वारा बताई जा सकती हैं। एकक कोष्ठिकाएं आद्य, जिनमें कण केवल कोरों पर स्थित हैं, अथवा केंद्रित हो सकती हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में अतिरिक्त कण उनके अंतःकेंद्र (अंतःकेंद्रित), प्रत्येक फलक के केंद्र पर (फलक-केंद्रित) अथवा दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर (अंत्य-केंद्रित) होते हैं। सात प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं को मिलाकर कुल चौदह प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनके परिणामस्वरूप चौदह ब्रेवे जालक बनते हैं।

कणों के निविड़ संकुलन के परिणामस्वरूप दो उच्च क्षमता के जालक, षट्कोणीय निविड़ संकुलित (**hcp**) और घनीय निविड़ संकुलित (**ccp**) प्राप्त होते हैं। घनीय निविड़ संकुलित (**ccp**) को फलक-केंद्रित घनीय (**fcc**) जालक भी कहा जाता है। इन दोनों संकुलनों में 74% स्थान संपूरित होता है। शेष स्थान दो प्रकार की रिक्तिकाओं के रूप में उपस्थित होता है – अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति। अन्य प्रकार के संकुलन निविड़ संकुलन नहीं हैं उनमें कणों की संकुलन दक्षता कम होती है। जबकि अंतःकेंद्रित घन जालक (**bcc**) में 68% स्थान और सरल घनीय जालक में केवल 52.4% स्थान ही संपूरित रहता है।

ठोसों की संरचनाएं परिपूर्ण नहीं होतीं। उनमें विभिन्न प्रकार की अपूर्णताएं अथवा दोष होते हैं। बिंदु दोष और रेखीय दोष सामान्य प्रकार के दोष हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के हैं – स्टॉइकियोमीट्री दोष, अशुद्धि दोष और नानस्टॉइकियोमीट्री दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दो आधारभूत प्रकार के स्टॉइकियोमीट्री बिंदु दोष हैं। आयनिक ठोसों में यह दोष शॉटकी और फ्रेंकेल दोष के रूप में उपस्थित होते हैं। अशुद्धि दोष क्रिस्टल में अशुद्धि की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। आयनिक ठोसों में जब आयन-अशुद्धि की संयोजकता मूल यौगिक के बैसे ही आयन से भिन्न होती है तब कुछ रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नानस्टॉइकियोमीट्री दोष, धातु-आधिक्रय और धातु-न्यून प्रकार के होते हैं। कभी-कभी अशुद्धियों की परिकलित मात्राओं का अचालकों में डोपन करने से उनके विद्युतीय गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों में ऐसे पदार्थों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठोस कई प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोहचुंबकत्व, प्रतिलोहचुंबकत्व और फेरीचुंबकत्व। इन गुणों को श्रव्य, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभिलेखीय यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इन सभी गुणों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संरचनाओं से सहसंबंधित किया जा सकता है।

## अध्यात

- 1.1 'अक्रिस्टलीय' पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए।
- 1.2 काँच, क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को काँच में रूपांतरित किया जा सकता है?
- 1.3 निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आण्विक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए।
- |   |                |          |
|---|----------------|----------|
| (i) टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड ( $P_4O_{10}$ ) | (v) $P_4$      | (ix) Rb  |
| (ii) अमोनियम फॉस्फेट, $(NH_4)_3PO_4$          | (vi) प्लास्टिक | (x) LiBr |
| (iii) SiC                                     | (vii) ग्रैफाइट | (xi) Si  |
| (iv) $I_2$                                    | (viii) पीतल    |          |
- 1.4 (i) उपसहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है?  
(ii) निम्नलिखित परमाणुओं की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है?  
(क) एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना  
(ख) एक अंतःकेंद्रित घनीय संरचना
- 1.5 यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाएं ज्ञात हैं तो क्या आप उसके परमाणिक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए।
- 1.6 'किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है', टिप्पणी कीजिए। किसी आँकड़ा पुस्तक से जल, एथिल ऐल्कोहॉल, डाइएथिल ईंधर तथा मैथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतराआण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
- 1.7 निम्नलिखित युग्मों के पदों में कैसे विभेद करेगे?  
(i) षट्कोणीय निविड़ संकुलन एवं घनीय निविड़ संकुलन  
(ii) क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका  
(iii) चतुष्फलकीय रिक्ति एवं अष्टफलकीय रिक्ति
- 1.8 निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं?  
(i) फलक-केंद्रित घनीय, (ii) फलक-केंद्रित चतुष्कोणीय, (iii) अंतःकेंद्रित
- 1.9 समझाइए—  
(i) धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार।  
(ii) आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं।
- 1.10 निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए।  
(i) सरल घनीय, (ii) अंतःकेंद्रित घनीय, (iii) फलक-केंद्रित घनीय।  
(यह मानते हुए कि परमाणु एक-दूसरे के संपर्क में हैं।)
- 1.11 चाँदी का क्रिस्टलीकरण  $fcc$  जालक में होता है। यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई  $4.07 \times 10^{-8} \text{ cm}$  तथा घनत्व  $10.5 \text{ g cm}^{-3}$  हो तो चाँदी का परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
- 1.12 एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतःकेंद्र पर P परमाणु स्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उपसहसंयोजन संख्या क्या है?
- 1.13 नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व  $8.55 \text{ g cm}^{-3}$  हो तो इसके परमाणिक द्रव्यमान  $93 \mu$  का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए।
- 1.14 यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या R हो तो r एवं R में संबंध स्थापित कीजिए।
- 1.15 कॉपर  $fcc$  जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई  $3.61 \times 10^{-8} \text{ cm}$  है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व  $8.92 \text{ g cm}^{-3}$  में समानता है।

- 1.16** विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकैल ऑक्साइड का सूत्र  $\text{Ni}_{0.98}\text{O}_{1.00}$  है। निकैल आयनों का कितना अंश  $\text{Ni}^{2+}$  और  $\text{Ni}^{3+}$  के रूप में विद्यमान है?
- 1.17** अर्धचालक क्या होते हैं? वो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता-क्रियाविधि में विभेद कीजिए।
- 1.18** नानस्टॉइकियोमीट्री क्यूप्रस ऑक्साइड,  $\text{Cu}_2\text{O}$ , प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात  $2:1$  से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ  $p$ - प्रकार का अर्धचालक है?
- 1.19** फेरिक ऑक्साइड, आक्साइड आयन के षट्कोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी तीन अष्टफलकीय रिक्तियों में से दो पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए।
- 1.20** निम्नलिखित को  $p$ - प्रकार या  $n$ - प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए –  
 (i) In से डोपित Ge (ii) B से डोपित Si
- 1.21** सोना (परमाणु त्रिज्या =  $0.144 \text{ nm}$ ) फलक-केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए।
- 1.22** बैंड सिद्धांत के आधार पर (i) चालक एवं रोधी (ii) चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है?
- 1.23** उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए –  
 (i) शॉट्की दोष, (ii) फ्रेंकेल दोष, (iii) अंतराकाशी, (iv) F-केंद्र।
- 1.24** ऐलुमिनियम धनीय निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास  $125 \text{ pm}$  है।  
 (i) एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए।  
 (ii)  $1.0 \text{ cm}^3$  ऐलुमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी?
- 1.25** यदि  $\text{NaCl}$  को  $\text{SrCl}_2$  के  $10^{-3}$  मोल % से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांदरण क्या होगा?
- 1.26** निम्नलिखित को उचित उदाहरणों से समझाइए –  
 (i) लोहचुंबकत्व  
 (ii) अनुचुंबकत्व  
 (iii) फेरीचुंबकत्व  
 (iv) प्रतिलोहचुंबकत्व  
 (v) 12–16 और 13–15 वर्गों के यौगिक

## कुछ पाठ्यनिहित प्रश्नों के उत्तर

**1.14** 4

**1.15** कुल रिक्तियों की संख्या =  $9.033 \times 10^{23}$

चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या =  $6.022 \times 10^{23}$

**1.16**  $\text{M}_2\text{N}_3$

**1.18** *ccp*